



पी.एम.श्री. केन्द्रीय विद्यालय न्यू बंगाईगाँव
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NEW BONGAIGAON
ASSAM-783381
CBSE Affiliation No.200038 CBSE School No.39275
e-mail: kenvidnbq@gmail.com Website: newbongaigaon.kvs.ac.in
Phone: (03664) 231653



बालवाटिका 3 में प्रवेश हेतु सूचना/Admission Notice for Balvatika 3
(for children of age 5 years completed and below 6 years as on 31/03/2024)

(31.03.2024 को आयु 5 वर्ष पूर्ण तथा 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए)

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय न्यू बंगाईगाँव द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा बालवाटिका 3 में (31/03/2024 को आयु 5 वर्ष पूर्ण तथा 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए) ऑफलाइन प्रवेश पंजीयन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका 2024-25 के अनुसार ऑफलाइन माध्यम से किये जाएँगे।
PM SHRI KV New Bongaigaon invites offline registrations for admissions in Balvatika 3 for the academic session 2024-25 (for children of age 5 years completed and below 6 years as on 31/03/2024). Registrations will be done in offline mode according to the Admission Guidelines 2024-25 issued by KV Sangathan (HQ), New Delhi.

बालवाटिका 3 (सत्र 2024-25) की पंजीयन समय सारिणी
Registration Schedule for Balvatika 3 (Session 2024-25)

क्रमांक/ Sr. No.	विषय-वस्तु/ Contents	निर्धारित तिथियाँ/ Scheduled Dates
1	ऑफलाइन पंजीयन प्रारंभ Starting of Offline Registrations	01/04/2024 (प्रातः 10:00 बजे/10 am)
2	ऑफलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि Last date for Offline Registration	15/04/2024 (सांय 5:00 बजे/5 pm)
3	(अ) पंजीकृत उम्मीदवारों की अस्थायी प्रवेश सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन (a) Declaration of provisional select and waitlist of registered candidates	19/04/2024
	(ब) चयनित योग्य उम्मीदवारों का प्रवेश (b) Admission of selected eligible candidates	19/04/2024 – 28/04/2024

कृपया पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें* :

बच्चे का फोटो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का विकलांगता प्रमाण पत्र, माता/पिता का आय प्रमाण पत्र, माता/पिता का सेवा प्रमाण पत्र, माता/पिता का स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र, बोंगाईगाँव का निवास प्रमाण पत्र (मकान किराया समझौता, बिजली या गैस या टेलीफोन का स्वयं के नाम का बिल, माता/पिता के नाम पर उनके कार्यालय द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आदि।

Please keep the following documents ready at the time of registration*:

Photo of child, Child's Birth Certificate, Child's Caste certificate, Child's Disability (Handicap) certificate, Service certificate of parent, Transfer count certificate of parent, Income certificate of parent, Residence proof of Bongaigaon (House Rent Agreement or Electricity/Gas/Telephone Bill in the name of parent or Address Proof issued by the department of parent etc.)

* पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करने व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट newbongaigaon.kvs.ac.in देखें।

Please go through the vidyalaya website newbongaigaon.kvs.ac.in for detailed information and downloading the registration form.

प्रवेश प्रभारी/Admission In-charge

प्रवेश प्रभारी/Admission In-charge

उप-प्राचार्य/Vice-Principal

उप-प्राचार्य/Vice-Principal

प्राचार्य/Principal

प्राचार्य/Principal

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय
न्यू बंगाईगाँव



Instructions regarding filling of registration form for Balvatika3 and documents to be submitted at the time of admission:

1) Age: Birth certificate of child. (DOB of child must strictly be between 01.04.2018 to 01.04.2019)

2) Proof of residence:

a) In case of own house, any one of the following documents must be submitted:

i) *Electricity bill in the name of father/mother

ii) *Gas connection copy in the name of father/mother

iii) *Landline bill in the name of father/mother

iv) Bank pass book copy (not older than 3 months) in the name of father/mother

v) *House papers in the name of father/mother

vi) Child's birth certificate bearing the same address

*However, if these are in the name of grandfather/grandmother then a proof of relation (affidavit/ration card bearing names of all family members with relation etc.) has to be submitted alongwith these.

b) In case of rented house, house rent agreement made before the date of registration and clearly stating the rent amount, on Rs. 100/- stamp paper along with proof of property in the name of landlord must be submitted.

c) However, the govt employees need not submit the above documents. They can submit a certificate issued from their department mentioning their place of residence.

3) No. of transfers:

a) The no. of transfers from 01.04.2017 to 31.03.24 has to be mentioned.

b) The minimum distance between two places of transfer must be 20 kms.

c) The minimum stay at the place of transfer must be 6 months.

d) A certificate stating the no. of transfers from your department must be submitted in the prescribed format available on our website.

4) Caste certificate:

a) SC/ST/OBC-NCL/OBC-CL/EWS/BPL certificate in the name of child must be submitted.

b) OBC-NCL certificate only in prescribed format available on our website must be submitted.

5) Service certificate:

a) Permanent Govt employees (Cat I to IV) must submit original service certificate issued by their department in prescribed format available on our website.

b) Private job employees/Contractual govt employees will be treated in Cat V only and they need not submit any service certificate.

c) Retired defence employees must submit certificate of retirement/discharge book issued by their department.

**All the sample document formats are available on our school website newbongaigaon.kvs.ac.in